



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 20.07.2021

**1-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गाड़ी में लिफ्ट देकर राहगीरो से लूटपाट करने वाला 01 वांछित लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 20/07/2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 90/2021 धारा 420/379/504 भादवि व मु0अ0सं0 96/2021 धारा 392 भादवि में वांछित 01 लुटेरा अभियुक्त पुष्पेन्द्र दीक्षित पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बीधा की गढी, थाना टप्पल जिला अलीगढ को थाना क्षेत्र के जीरो जीरो प्वाईट परीचौक के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जो अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर गाड़ी में लिफ्ट देकर राहगीरो से लूटपाट कर अवैध धन अर्जित करता था।

### **अभियुक्त का विवरण:**

पुष्पेन्द्र दीक्षित पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बीधा की गढी थाना टप्पल जिला अलीगढ।

### **अपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0- 90/2021 धारा 420/379/504 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 96/2021 धारा 392 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।



## 2-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा महिला की हत्या करके गैर-राज्य भाग जाने वाला हत्यारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14/07/2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-335/2020 धारा 302 भादवि थाना बीटा 2 में वांछित अभियुक्त गोपाल गौर पुत्र स्वाधीन निवासी गाँव बमुनी थाना मजबत, जिला उदलगिरी, आसाम को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

### घटना का विवरण:

दिनांक 17.06.2020 को वादी सरोज कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी बडी रूरी सादिकपूर, थाना बागर मऊ जिला उन्नाव वर्तमान पता मकान नम्बर जी-348 थाना बीटा-2 सेक्टर अल्फा-2 ग्रेटर नोएडा द्वारा थाना बीटा-2 आकर अपनी पत्नी जूनी की हत्या करने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना बीटा 2 पर अभियुक्त गोपाल गौर पुत्र स्वाधीन निवासी गाँव बमुनी थाना मजबत जिला उदलगिरी, आसाम के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी सरोज कुमार पी.जी. मे खाना बनाता था और उसकी पत्नी जूनी अल्फा सेक्टर में खाना बनाने व सफाई का काम करती थी। अभियुक्त मृतका जूनी को पूर्व से ही जानता था तथा दिनांक 16/06/2020 घटना समय से ही अभियुक्त, जूनी की हत्या कर फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एनबीडब्लू आदेश मा०न्यायालय से प्राप्त कर तथा पुलिस उच्चाधिकारी से गैर प्रांत जाने की अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त गोपाल गौर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है।

## अभियुक्त का विवरण:

गोपाल गौर पुत्र स्वाधीन निवासी गाँव बमुनी, थाना मजबत, जिला उदलगिरी, आसाम।

## अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-335/2020 धारा 302 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।



**3-थाना बिसरख पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 02 शातिर वाहन चोर घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से क्रेटा कार, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद।**

दिनांक 20.07.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना बिसरख क्षेत्र के हिन्दन पुस्ता चौकी राईज सिटी के पास हुई पुलिस मुठभेड के दौरान 02 शातिर वाहन चोर 1. सिराज पुत्र नसरु निवासी ग्राम ओसी, थाना ढकिया, जिला रामपुर वर्तमान पता भगवान दास का मकान, ग्राम मकनपुर, थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद 2. रामू पुत्र बच्चू निवासी दयालपुर थाना मुरसान जिला हाथरस को पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 क्रेटा कार रजि0 नं0 एचआर 10 एए 4361, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद किये गये है।

दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के चोर है। जिनके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर व आस-पास के जनपदो मे चोरी की काफी घटनाओ को अंजाम दिया गया है।

## अभियुक्तों का विवरण:

1. सिराज पुत्र नसरु निवासी ग्राम ओसी, थाना ढकिया, जिला रामपुर वर्तमान पता भगवान दास का मकान, ग्राम मकनपुर, थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
2. रामू पुत्र बच्चू निवासी दयालपुर थाना मुरसान जिला हाथरस।

## पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

### अभियुक्त सिराज

1. मु0अ0सं0 225/16 धारा 302/394/120बी/411 भादवि थाना फजलगंज जिला कानपुर।
2. मु0अ0सं0 608/19 धारा 307/411/414 भादवि थाना मसुरी गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 609/19 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मसुरी गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 1143/19 धारा 307/411/414/379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 2430/18 थाना 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 1153/18 धारा 354/354डी/307/323/506 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 40/19 धारा 379/411 भादवि थाना खोडा गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0 1278/19 धारा 27/411/34 भादवि थाना तिमारपुर दिल्ली।
9. मु0अ0सं0 1306/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 1307/18 धारा 411/414 भादि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0 46220/18 धारा 379 भादवि थाना विवेक विहार दिल्ली।
12. मु0अ0सं0 618/2021 धारा 307/414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0 619/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

## अभियुक्त रामू

- 1.मु0अ0सं0 225/16 धारा 302/394/120बी/411 भादवि थाना फजलगंज जिला कानपुर।
- 2.मु0अ0सं0 618/2021 धारा 307/414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 620/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

## **बरामदगी का विवरण:**

- 1.01क्रेटा गाडी रजि0 नं0 एचआर 10 एए 4361
- 2.02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस